

भारत सरकार
GOVERNMENT OF INDIA

सत्यमेव जयते

दिल्ली राजपत्र

Delhi Gazette

एस.जी.-डी.एल.-अ.-23062025-264049
SG-DL-E-23062025-264049असाधारण
EXTRAORDINARYप्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 181]	दिल्ली, बृहस्पतिवार, जून 19, 2025/ज्येष्ठ 29, 1947	[रा.रा.रा.क्षे.दि. सं. 96
No. 181]	DELHI, THURSDAY, JUNE 19, 2025/JYAISTHA 29, 1947	[N. C. T. D. No. 96

भाग IV
PART IVराष्ट्रीय राजधानी राज्य क्षेत्र दिल्ली सरकार
GOVERNMENT OF THE NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI

वन एवं वन्यजीव विभाग

अधिसूचना

दिल्ली, 19 जून, 2025

फा.सं. 15147/डब्ल्यूएफडी/सीओटी/2024-25/3835. जबकि, डीपीटीए ई-फोरेस्ट पोर्टल पर वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) को श्री राजेश दुलाल मुंडल, डीटीसी बस डिपो, वसंत विहार, नई दिल्ली-110057 से एक आवेदन आईडी संख्या 15147 प्राप्त हुआ था, जिसमें दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 (1994 का दिल्ली अधिनियम 11) (तत्पश्चात् डीपीटीए, 1994 के रूप में संदर्भित) के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम बस डिपो, वसंत विहार, नई दिल्ली के भवन के निर्माण हेतु 2.0234 हेक्टेयर क्षेत्र में 46 वृक्षों के प्रत्यारोपण/कटाई हेतु अनुमति मांगी गई थीं

और जबकि, वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) ने आवेदन पर समुचित विचारण के पश्चात्, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) में वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा वृक्ष काटने/प्रत्यारोपण के आवेदन पर विचार करने हेतु अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा को ध्यान में रखते हुए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) की अनुप्रयोज्यता से दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 धारा 29 के अंतर्गत 2.0234 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) के संबंध में छूट मांगी है


इसलिए, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल एतद् द्वारा जनहित में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम बस डिपो, वसंत विहार, नई दिल्ली के भवन के निर्माण हेतु उक्त अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से 2.0234 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को निम्नलिखित शर्तों के साथ छूट प्रदान करते हैं :

- 1) यह अधिसूचना दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत केवल 2.0234 हेक्टेयर क्षेत्र (अनुलग्नक-क में विवरणानुसार) को दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम (डीपीटीए), 1994 के अंतर्गत दिल्ली परिवहन निगम बस डिपो वसंत विहार नई दिल्ली के भवन के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 की उप-धारा (3) के अंतर्गत अधिकतम एक हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा से छूट देने हेतु जारी की जा रही हैं जैसा कि वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा मांग की गई हैं
- 2) दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 29 के अंतर्गत छूट हेतु यह अधिसूचना, किसी भी स्थिति में, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 के अंतर्गत वृक्षों के काटने/प्रत्यारोपण की अनुमति के रूप में नहीं मानी जाएगी
- 3) वृक्षों के प्रत्यारोपण/काटने हेतु आवेदन पर वृक्ष अधिकारी (पश्चिम वन प्रभाग) द्वारा दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994, दिल्ली वृक्ष परिरक्षण नियमावली, 1996 के प्रावधानों, संबंधित दिशा-निर्देशों, इस संबंध में जारी निर्देशों तथा समस्त संबंधित न्यायालय आदेशों के अंतर्गत स्वतंत्र रूप से तथा पृथक रूप से विचार किया जाएगा और जांच की जाएगी, जिसमें छूट प्राप्त क्षेत्र के भीतर प्रत्यारोपित/काटे जाने वाले प्रभावित वृक्षों की संख्या को न्यूनतम करने हेतु आवेदन को ध्यान में रखा जाएगा

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के उपराज्यपाल
के आदेश से तथा उनके नाम पर,
बिपुल पाठक, अपर मुख्य सचिव (पर्यावरण एवं वन)

अनुलग्नक- क

दिल्ली परिवहन निगम बस डिपो, वसंत विहार, नई दिल्ली के भवन के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण।



संकेतिका :-

परियोजना क्षेत्र	
निर्देशांक	000
बिंदु	
परिमाण	

दिल्ली परिवहन निगम बस डिपो, वसंत विहार, नई दिल्ली के भवन के निर्माण हेतु दिल्ली वृक्ष परिरक्षण अधिनियम, 1994 की धारा 9 (3) के अंतर्गत अधिकतम 1 हेक्टेयर क्षेत्र की सीमा के प्रावधान से धारा 29 के अंतर्गत छूट प्राप्त क्षेत्र की सीमा का विवरण

क्र० सं०	उत्तर दिशा की ओर	पूर्व दिशा की ओर	अक्षांश	देशान्तर
1	3160960.910	712229.462	28° 33' 29.5177" उ०	77° 10' 10.2116" पू०
2	3161036.132	712153.918	28° 33' 32.0047" उ०	77° 10' 07.4832" पू०
3	3161166.941	712291.790	28° 33' 36.1713" उ०	77° 10' 12.6413" पू०
4	3161111.084	712345.724	28° 33' 34.3258" उ०	77° 10' 14.5877" पू०
5	3161085.489	712355.392	28° 33' 33.4890" उ०	77° 10' 14.9262" पू०
6	3161083.534	712357.295	28° 33' 33.4243" उ०	77° 10' 14.9949" पू०

उपभोगी संस्था द्वारा आवेदन में प्रस्तुत केएमएल फाइल से डब्ल्यूजीएस-84, यूटीएम-43 का उपयोग करके निर्देशांक पुनः प्राप्त किए गए हैं।

****छूट प्राप्त क्षेत्र = 2.0234 हेक्टेयर**

DEPARTMENT OF FORESTS AND WILDLIFE

NOTIFICATION

Delhi, the 19th June, 2025

F.No.15147/WFD/COT/2024-25/3835.—WHEREAS, an application ID No. 15147 on DPTA e-Forest portal was received by the Tree Officer (West Forest Division) from Sh. Rajesh Dulal Mundal, DTC Bus Depot, Vasant Vihar, New Delhi-110057, for seeking permission under the Delhi Preservation of Trees Act, 1994 (Delhi Act 11 of 1994) (hereinafter referred to as DPTA, 1994) for transplantation / felling of 46 number of trees affected due to Construction of Building Delhi Transport Corporation Bus Depot, Vasant Vihar, New Delhi under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 in an area of 2.0234 hectare.

AND WHEREAS, the Tree Officer (West Forest Division) after due application of mind, has sought exemption in respect of 2.0234 hectare area (as per details in Annexure A) under Section 29 of the DPTA, 1994 from applicability of Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994, in view of limitation of maximum one hectare area for considering application of tree transplantation / felling by the Tree Officer (West Forest Division) in Section 9 sub-section (3) of the DPTA, 1994.

THEREFORE, in exercise of the powers conferred by Section 29 of the DPTA, 1994, the Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi, hereby, in public interest, exempts an area of 2.0234 hectare (as per details in Annexure-A), from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the said Act for Construction of Building Delhi Transport Corporation Bus Depot, Vasant Vihar, New Delhi under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 with the following conditions:

1. This notification is being issued under Section 29 of the DPTA, 1994 only to exempt the 2.0234 hectare area (as per details in Annexure A) from the limitation of maximum one hectare area under sub-section (3) of Section 9 of the DPTA, 1994 for Construction of Building Delhi Transport Corporation Bus Depot, Vasant Vihar, New Delhi under Delhi Preservation of Trees Act (DPTA), 1994 as sought by the Tree Officer (West Forest Division).


2. This notification for exemption under Section 29 of the DPTA, 1994, in any case, shall not be considered as permission for transplantation / felling of trees under the DPTA, 1994.

3. The application for transplantation / felling of trees shall be considered and scrutinized independently and separately by the Tree Officer (West Forest Division) under the provisions of the DPTA, 1994, the Delhi Preservation of Trees Rules, 1996, relevant guidelines, directions issued in this regard and all relevant court orders with due application of mind minimizing the number of affected trees to be transplanted/felled from within the exempted area.

By Order and in the Name of the
Lt. Governor of National Capital Territory of Delhi,
BIPUL PATHAK, Addl. Chief Secy. (Environment & Forests)

Annexure-A

Boundary details of the area exempted U/S 29 from limitation of max 1 ha area U/S 9 (3) of Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for proposed Construction of Building Delhi Transport Corporation Bus Depot, Vasant Vihar, New Delhi.



LEGEND:-

Project Area	
Coordinate No.	000
Points	
Dimension	

**Boundary Details of the Area Exempted U/S 29 from provision of limitation of max 1 ha area U/S 9 (3)
Delhi Preservation of Trees Act, 1994, for Construction of Building Delhi Transport Corporation Bus
Depot, Vasant Vihar, New Delhi.**

S.NO.	NORTHING	EASTING	LATITUDE	LONGITUDE
1	3160960.910	712229.462	28° 33' 29.5177" N	77° 10' 10.2116" E
2	3161036.132	712153.918	28° 33' 32.0047" N	77° 10' 07.4832" E
3	3161166.941	712291.790	28° 33' 36.1713" N	77° 10' 12.6413" E
4	3161111.084	712345.724	28° 33' 34.3258" N	77° 10' 14.5877" E
5	3161085.489	712355.392	28° 33' 33.4890" N	77° 10' 14.9262" E
6	3161083.534	712357.295	28° 33' 33.4243" N	77° 10' 14.9949" E
Coordinates have been retrieved from KML file submitted in the application by the user agency using WGS-84, UTM-43.				
**Exempted area = 2.0234 Hac				